



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अपने ब्रैम्पटन कोविड-19 आवश्यक चेहरा ढकना बाइ-लॉ को अपडेट किया और आगे बढ़ाया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (17 जून, 2021) – पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह के बाद, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, ब्रैम्पटन कोविड-19 संबंधी आवश्यक चेहरा ढकना (मैनडेटरी फेस कवर्गिंग्स) बाइ-लॉ (Brampton COVID-19 Mandatory Face Coverings By-law) को अपडेट किया और 30 सितम्बर, 2021 तक आगे बढ़ा दिया है।

कोविड-19 संबंधी आवश्यक चेहरा ढकना बाइ-लॉ के अंतर्गत, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर जगहों पर गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना जरूरी है। पहले, स्कार्फ, बंदन्स, नेक गेटर्स या नेक वार्मर्स और एक्सलेशन वाल्वस वाले मास्क, चेहरा ढकने के स्वीकार्य रूप थे। पर अब संशोधित बाइ-लॉ के अंतर्गत, इस तरह की चेहरा ढकने वाली चीजों की अनुमति नहीं है। इसके अलावा संशोधित बाइ-लॉ के अंतर्गत, मास्कों को खानपान के लिए केवल तब ही हटाया जा सकता है, यदि कोई व्यक्ति उस उद्देश्य के लिए नियत क्षेत्र में बैठा हो।

हालांकि रीजन ऑफ पील (Region of Peel) में वैक्सीन कवरेज बढ़ रही है, फिर भी कम्युनिटी, कोविड-19 (COVID-19) का काफी अधिक कम्युनिटी ट्रांसमिशन देख रही है, साथ ही तेज़ी से फैलते इसके भिन्न रूपों का प्रकट होना भी चिंता का विषय है। निवासियों के लिए आवश्यक है कि इसे फैलने से रोकने के लिए, शारीरिक दूरी, अच्छी तरह से सफाई रखने और मास्क पहनने जैसे उपाय जारी रखें।

गैर-मेडिकल मास्कों को और चेहरे को ढकने और अन्य निजी सुरक्षात्मक उपकरण (पी.पी.ई.) (Personal Protective Equipment) (PPE) के सही प्रयोग के बारे में अधिक जानने के लिए, peelregion.ca/coronavirus/prevention/ पर जाएं।

अतिरिक्त जानकारी और कारोबारियों तथा फ़ैसिलिटी संचालकों के लिए संसाधन, brampton.ca/masks पर उपलब्ध हैं।

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के प्रयासों के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए, brampton.ca/COVID19 पर जाएं।



मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca